



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2011 (भाद्रपद 19, 1933)

No. 37]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2011 (BHADRA 19, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of  
the Government of India]

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. 2/31/09-प्रशासन/141431--केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा  
आयोग में निम्नलिखित विशेष कार्य अधिकारियों को निदेशक के पद पर  
वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- में ग्रेड वेतन रु. 8,700/- के साथ  
तदर्थ आधार पर दिनांक 18.08.2011 (पूर्वाह्न) से बारह माह की अवधि  
अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :-

(i) श्री पी. एम. पिल्लै

(ii) श्री सुरजीत सिंह

2. निदेशक के पद पर इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टफ)  
भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत पूर्णतया तदर्थ  
आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार  
प्राप्त नहीं होता है।

आर. एन. नायक  
अवर सचिव (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सं. 2/9/11-प्रशासन/141433--केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा  
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के उप निदेशक श्री सौमित्र मजूमदार को आयोग  
में तकनीकी परीक्षक (स्टोर्स, प्रोक्योरमेंट एण्ड इन्वेंटरी कंट्रोल) के पद  
पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन रु. 6,600/- + विशेष  
वेतन के साथ प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 01.08.2011 (पूर्वाह्न) से  
प्रारम्भ में चार वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले  
हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

आर. एन. नायक  
विशेष कार्य अधिकारी (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. 2/38/10-प्रशासन/142018--केन्द्रीय सतर्कता आयोग एतद्वारा  
आयोग में निम्नलिखित अवर सचिवों को विशेष कार्य अधिकारी के पद पर  
वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के साथ तदर्थ

आधार पर दिनांक 18.08.2011 (पूर्वाह्न) से बारह माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं :--

(i) श्री जे. विनोद कुमार

(ii) श्री आर. एन. नायक

2. विशेष कार्य अधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) भर्ती नियमावली, 2007 के नियम 4(1) (ख) के अन्तर्गत पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

सुरजीत सिंह  
निदेशक (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अगस्त 2011

सं. पी.तीन-2/2011-मंत्रा.--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र-प्रथम, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अजमेर के श्री मंगला राम, प्रशासनिक अधिकारी (ईरला संख्या-7268) ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 31.07.2011 (अपराह्न) को त्याग दिया।

जी. वी. एच. गिरीप्रसाद  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

सं. पी.तीन-2/2011-मंत्रा.--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली के श्री सुब्रता घोष, अनुभाग अधिकारी (ईरला संख्या-7692) ने अनुभाग अधिकारी का पदभार दिनांक 31.07.2011 (अपराह्न) को त्याग दिया।

जी. वी. एच. गिरीप्रसाद  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अगस्त 2011

सं. ओ.दो.-4775/2011-डी.ए.-4-कार्मिक--श्री सुनील कुमार शर्मा, उप कमाण्डेंट (ईरला-4775), ग्रुप केन्द्र-प्रथम, के.रि.पु.बल, अजमेर का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने दिनांक 01.08.2011 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया है। अतः इनको दिनांक 01.08.2011 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. ओ.दो.-3881/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. शरीख जमान यूसूफी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक

कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 01.08.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, मोकामाघाट में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3883/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. बीर्दी चंद यादव को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 03.08.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु.बल, अजमेर में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3884/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. बेन्जमिन लालरमूणा को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 09.08.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु.बल, सिलचर में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3885/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. वैभव कुमार सुधान्यु को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 09.08.2011 पूर्वाह्न से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु.बल, मुजफ्फरपुर में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. ओ.दो.-3888/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. प्रतिपाल राजपालि को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 18.08.2011 (अपराह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु.बल, भोपाल में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3887/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. बसवराज एम. के. को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 18.08.2011 (अपराह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी सी. एच., के.रि.पु.बल, बेंगलूर में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो.-3886/11-कार्मिक(एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. तरन्जीत कौर सिद्धू को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- साथ में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन में अस्थायी रूप से दिनांक 03.08.2011 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिकारी ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, जलन्धर में रिपोर्ट किया है।

आर. एन. मिश्रा  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय  
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. ई-16013/1/03/2004/कार्मिक-1/225--प्रतिनियुक्ति से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री सुनील राय भा.पु.से. (ओ.आर.-87), ने दिनांक 08.08.2011 (अपराह्न) को महानिरीक्षक, के.ओ.सु.ब., पू.ख. मुख्यालय, पटना का पदभार छोड़ दिया है।

हस्ता./- अपठनीय  
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. का.स्था.(ह व रो)/ई-IV पै/72--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्रीमती कमलम के.	सहायक लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृशूर	31.07.2011 अपराह्न (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती श्यामला एस.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	18.07.2011 पूर्वाह्न (स्वैच्छिक)

हस्ता./-अपठनीय  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अगस्त 2011

सं. ए-32013/मौ. वि.-1/एफ.सी.एस./2008-स्था.-1--राष्ट्रपति ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के निम्नलिखित मौसम विज्ञानी श्रेणी-1 (वैज्ञानिक सी) को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से निदेशक (वैज्ञानिक डी) (पी बी-3 रु. 15,600-39,100+ग्रेड पे रु. 7,600/-) के पद पर नियुक्त किया है :-

क्र. सं.	नाम	निदेशक (वैज्ञानिक डी) के पद पर नियुक्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एजाज़ एहमद	30.11.2009
2.	श्री बी. पुट्टाना (अ.जा.)	14.10.2009
3.	श्री उदय वीर सिंह (अ.जा.)	20.10.2009
4.	श्री एस. एम. मेत्री	13.10.2009
5.	श्री संजय ओनेल शौ (अ.ज.जा.)	13.10.2009
6.	डॉ. कृष्णमूर्थी वी. पदगलवार (अ.ज.जा.)	14.10.2009
7.	श्री बिश्वोमभर	15.11.2009
8.	श्री एल. रमेश बाबू	15.11.2009
9.	श्री जे. आर. प्रसाद	15.11.2009
10.	डॉ. वी. विजया भास्कर	06.12.2010
11.	श्री एस. सी. जैन	12.11.2010
12.	श्रीमती सुनीथा देवी एस.	15.11.2010
13.	श्री एन. के. जैन	13.11.2010
14.	श्रीमती रूपा जग्गी	30.11.2010
15.	डॉ. (कु.) सोमा सेन रॉय	12.11.2009
16.	श्री पी. ए. वी. नमपूथरी	15.11.2010
17.	श्री पी. ए. कोरे	12.11.2010
18.	श्री वाई. पी. सिंह	12.11.2010
19.	डॉ. (श्रीमती) गीता अग्निहोत्री	15.11.2010
20.	श्री एस. सुदेवन	03.12.2010
21.	श्री रमेश चन्द	15.11.2010
22.	श्री एस. आई. एम. रिज़वी	12.11.2010
23.	डॉ. टी. पी. सिंह	12.11.2010

(1)	(2)	(3)
24. डॉ. कृपाण घोष		12.11.2010
25. डॉ. डी. आर. पटनायक		12.11.2010
26. श्री गजेन्द्र कुमार		12.11.2010
27. श्री श्याम दास कोटल		12.11.2010
28. श्री विजय कुमार सोनी		12.11.2010
29. श्री ए. डी. टथे		12.11.2010
30. श्री रवि कान्त सिंह		12.11.2010
31. श्री जे. के. शर्मा		13.05.2011
32. श्री आर. के. गिरी		09.05.2011

विवेक सिन्हा  
निदेशक (स्थापना)  
कृते मौसम विज्ञान के महानिदेशक

#### परमाणु ऊर्जा विभाग

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 18 अगस्त 2011

सं.निसेसंप्रनि/प्र/2(199)/2011-भर्ती/684--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक तथा ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति ग्रेड	वेतन बैंड रु.	ग्रेड वेतन रु.	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सुजित बसाक	वैअ/जी	37,400	8,900	01.07.2011 (पूर्वाह)
2.	श्री बी. एन. आर. प्रसन्ना	वैअ/जी	37,400	8,900	01.07.2011 (पूर्वाह)
3.	श्री वी. सुधेन्द्रा	वैअ/जी	37,400	8,900	01.07.2011 (पूर्वाह)
4.	श्री मिलिंद गोवर्धन	वैअ/जी	37,400	8,900	01.07.2011 (पूर्वाह)
5.	श्री ए. के. जाना	वैअ/जी	37,400	8,900	01.07.2011 (पूर्वाह)
6.	श्री ए. एस. यादव	वैअ/जी	37,400	8,900	01.07.2011 (पूर्वाह)

बी. जगन मोहन राव  
प्रशासन अधिकारी-III

#### नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 18 अगस्त 2011

सं. नाईस/काप्रभ.-1/04/06/651--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्रीमती बी. ललिता, सहायक को रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन सहित रु. 9,300--34,800 के वेतन बैंड-2 में तदर्थ आधार पर दिनांक

01.08.2011 से 01.09.2011 अथवा भावी आदेश होने तक जो भी पूर्व घटित हो, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्ले  
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500629, दिनांक 5 अगस्त 2011

सं. पखनि-51/39/2005-पेन.--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित तारीख से अपने कार्यभार छोड़ दिए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री वी. वेन्कटरमणा रेड्डी	वैज्ञानिक अधिकारी-एफ	28/02/2011	अधिवर्षिता
2.	श्री सी. शांति कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी-जी	31/07/2011	अधिवर्षिता
3.	श्री बी. सुब्बा राव	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	31/07/2011	अधिवर्षिता

पी मोहन बाबु  
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मेटल एण्ड मिनरल कोर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 05 जुलाई 2011

सं. 560(5)/002268--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मेटल एण्ड मिनरल कोर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ओगेस ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. 560(5)/00839789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओगेस ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. एल. मलिक  
उप कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा



कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स ए टी वी प्रोपेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में  
नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 जुलाई 2011

सं. 560(5)/119089--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ए टी वी प्रोपेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

आत्मा साह  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 19 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/1874--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	पं. सं.	कम्पनी का नाम
1.	15-007824	मैसर्स इन्द्रधनुष एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-006000	मैसर्स मातृभूमि एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-006510	मैसर्स ग्रीन फार्म डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-006687	मैसर्स भीयु टेलीविज़न प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-007463	मैसर्स रूबीन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-008732	मैसर्स कन्टीनैटल मेटल एण्ड मिनरल रिसोर्सेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-008834	मैसर्स श्री ट्रान्सपोर्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-008993	मैसर्स जुम न्योमिन प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-010786	मैसर्स अथी तत्वा कैपिटल लिमिटेड
10.	15-010797	मैसर्स एकाग्र टेलिविज़न उड़ीसा प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-011027	मैसर्स डी. डी. म ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-011381	मैसर्स माँ तारीणी सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड

वि. महान्ति  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स उत्कल बाती पब्लिकेशन्स लिमिटेड के विषय में  
कटक-753014, दिनांक 23 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/1895--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उत्कल बाती पब्लिकेशन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

वि. महान्ति  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स उड़िसा क्लब लिमिटेड के विषय में

कटक-753014, दिनांक 24 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/1901--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स उड़िसा क्लब लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वि. महान्ति  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
मैसर्स गर्ग आफर स्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कटक-753014, दिनांक 25 अगस्त 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/1942--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गर्ग आफर स्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वि. महान्ति  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 19th August 2011

No. 2/31/09-Admn./141431—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following OSDs in the Commission as Directors on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 18.08.2011 (F/N) for a period of twelve months or till further orders, whichever is earlier :—

- (i) Shri P. M. Pillai
- (ii) Shri Surjit Singh

2. Their appointment to the post of Director is purely on ad hoc basis under Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 as amended from time to time and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

R. N. NAYAK  
Officer on Special Duty (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/9/11-Admn./141433—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Saumitra Mazumdar, Deputy Director, Central Electricity Authority as Technical Examiner (Stores Procurement and Inventory Control) in the Commission in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/-, with Grade Pay of Rs. 6,600/- + Special Pay on deputation basis w.e.f. 01.08.2011 (F/N) initially for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

R. N. NAYAK  
Officer on Special Duty (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

New Delhi-110023, the 24th August 2011

No. 2/38/10-Admn./142018—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following Under Secretaries in the Commission as 'Officer on Special Duty' on ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 18.08.2011 (F/N) for a period of twelve months or till further orders, whichever is earlier :—

- (i) Shri J. Vinod Kumar
- (ii) Shri R. N. Nayak

2. Their appointment to the post of 'Officer on Special Duty' is purely on ad-hoc basis under Rule 4(1)(b) of the CVC (Staff) Rules, 2007 as amended from time to time and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

SURJIT SINGH  
Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 17th August 2011

No. P.III-2/2011-Min.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation,

Shri Mangla Ram, Administrative Officer, Section Officer, (IRLA-7268) of O/o DIG, Group Centre-One, CRPF, Ajmer has relinquished charge of the post of Administrative Officer in the Afternoon of 31.07.2011.

G. V. H. GIRI PRASAD  
DIGP (Organisation)

No. P.III-2/2011-Min.—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of Superannuation, Shri Subrata Ghosh, Section Officer, (IRLA-7692) of Directorate General, CRPF, New Delhi has relinquished charge of the post of Section Officer in the Afternoon of 31.07.2011.

G. V. H. GIRI PRASAD  
DIGP (Organisation)

New Delhi-110003, the 17th August 2011

No. O.II-4775/2011-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the competent authority, Shri Suneel Kumar Sharma, Dy. Commandant (IRLA-4775) of GC-I, CRPF, Ajmer has relinquished his post on 01.08.2011 (F/N). Accordingly, his name stands deleted from the Roll of the force with effect from 01.08.2011 (F/N).

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

The 18th August 2011

No. O.II.3881/II-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sharique Zaman Yusufi as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 01.08.2011 till further orders. He has reported/joined in GC, CRPF, Mokamaghat.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

No. O.II.3883/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Birdi Chand Yadav as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 03.08.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Ajmer.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

No. O.II.3884/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Benjamin Lalrammuana as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 09.08.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Silchar.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

No. O.II.3885/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Vaibhav Kumar Sudhanshu as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 09.08.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Muzaffarpur.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

The 24th August 2011

No. O.II.3888/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Pratipal Rajpali as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the afternoon of 18.08.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Bhopal.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

No. O.II.3887/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Basavaraj M. K. as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the afternoon of 18.08.2011 till further orders. He has reported/joined in CH, CRPF, Bangalore.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

No. O.II.3886/11-Pers (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Miss) Taranjit Kaur Sidhu as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity from the forenoon of 03.08.2011 till further orders. He has reported/joined in GC, CRPF, Jalandhar.

R. N. MISRA  
DIGP (Pers)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 18th August 2011

No. E-16013/1/03/2004/Pers.-I/225—On repatriation to parent cadre, Shri Sunil Roy, IPS (OR:1987), Inspector General, CISF relinquished the charge of the post of IG, CISF, ES HQrs, Patna in the afternoon of 08.08.2011.

Sd/- ILLEGIBLE  
Dir. Gen./CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 24th August 2011

No. O.E./E&C/EIVP/72—The following officials of IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Smt. Kamalam K.	Asstt. Accounts Officer Branch Officer, Thrissur	31.07.2011 (AN) (Superannuation)
2.	Smt. Syamala S.	Sr. Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	18.07.2011 (FN) (Voluntary)

Sd/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES  
INDIA METEOREOLOGICAL DEPARTMENT  
O/o THE DIRECTOR GENERAL OF METEOROLOGY

New Delhi-110003, the 17th August 2011

No. A-32013/Met.Gr.-I/FCS/08-E-I—The President is pleased to appoint the under mentioned Meteorologists Grade-I (Scientist C) of India Meteorological Department as Direcotrs (Scientist D) (Scale : Pay in P.B. Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) in substantive capacity in the same department with effect from the dates indicated against their names below :—

Sl. No.	Name	Date from which appointed as Director (Scientist D)
1	2	3
1.	Shri Ejaz Ahmed	30.11.2009
2.	Shri B. Puttanna (SC)	14.10.2009
3.	Shri Udai Vir Singh (SC)	20.10.2009
4.	Shri S. M. Metri	13.10.2009
5.	Shri Sanjay O'Neill Shaw(ST)	13.10.2009

1	2	3
6.	Dr. Krishnamurthy V. Padgalwar(ST)	14.10.2009
7.	Shri Bishwombhar	15.11.2010
8.	Shri L. Ramesh Babu	15.11.2010
9.	Shri J. R. Prasad	15.11.2010
10.	Dr. V. Vizaya Bhaskar	06.12.2010
11.	Shri S. C. Jain	12.11.2010
12.	Smt. Sunitha Devi S.	15.11.2010
13.	Shri N. K. Jain	13.11.2010
14.	Smt. Rupa Jaggi	30.11.2010
15.	Dr. (Ms.) Soma Sen Roy	12.11.2010
16.	Shri P. A. V. Nampoothiri	15.11.2010
17.	Shri P. A. Kore	12.11.2010
18.	Shri Y. P. Singh	12.11.2010
19.	Dr. (Mrs.) Geeta Agnihotri	15.11.2010
20.	Shri S. Sudevan	03.12.2010
21.	Shri Ramesh Chand	15.11.2010
22.	Shri S. I. M. Rizvi	12.11.2010
23.	Dr. T. P. Singh	12.11.2010
24.	Dr. Kripan Ghosh	12.11.2010
25.	Dr. D. R. Pattanaik	12.11.2010
26.	Shri Gajendra Kumar	12.11.2010(AN)
27.	Shri Shyam Das Kotal	12.11.2010
28.	Shri Vijay Kumar Soni	12.11.2010
29.	Shri A. D. Tathe	12.11.2010
30.	Shri Ravi Kant Singh	12.11.2010
31.	Shri J. K. Sharma	13.05.2011
32.	Shri R. K. Giri	09.05.2011

VIVEK SINHA  
Dir. (Establishment)  
for Dir. Gen. of Meteorology

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
(DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND  
ESTATE MANAGEMENT)

Mumbai-400094, the 18th August 2011

No. DCSEM/A/2(199)/2011-Rectt./664—The President is pleased to appoint the following Officers in the Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy on their

promotion to the grade and date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Date of assumption of charge
1.	Shri Sujit Basak	SO/G	37,400— 67,000/-	8,900/-	01.07.2011 (FN)
2.	Shri B.N.R. Prasanna	SO/G	37,400— 67,000/-	8,900/-	01.07.2011 (FN)
3.	Shri V. Sudhendra	SO/G	37,400— 67,000/-	8,900/-	01.07.2011 (FN)
4.	Shri Milind Gowardhan	SO/G	37,400— 67,000/-	8,900/-	01.07.2011 (FN)
5.	Shri A. K. Jana	SO/G	37,400— 67,000/-	8,900/-	01.07.2011 (FN)
6.	Shri A. S. Yadav	SO/G	37,400— 67,000/-	8,900/-	01.07.2011 (FN)

B. JAGAN MOHAN RAO  
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 18th August 2011

No. NFC/PAR-I/04/06/651—Chief Executive, NFC appoints Smt. B. Lalitha, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01.08.2011 to 01.09.2011 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. S. PILLAI  
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR  
EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500016, the 4th August 2011

No. AMD-51(39)/2005-Pen.—On attaining the age of superannuation, the following Officers have relinquished the charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	S./Shri/Smt. V. Venkata Ramana Reddy, Scientific Officer-F	28.02.2011 (AN)	Superannuation
2.	C. Shanti Kumar, Scientific Officer-G	31.07.2011 (AN)	Superannuation
3.	B. Subba Rao, Scientific Officer-D	31.07.2011 (AN)	Superannuation

P. MOHAN BABU  
Chief Administrative and Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Metal and Mineral Corporation Private Limited

New Delhi-110019, the 5th July 2011

No. 560(5)/2268—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Metal and Mineral Corporation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Aurous Oil and Gas Exploration Limited

New Delhi-110019, the 16th August 2011

No. 560(5)/39789—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aurous Oil and Gas Exploration Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. School of Interior Designing Private Limited

New Delhi-110019, the 16th August 2011

No. 560(5)/89176—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. School of Interior Designing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. South Eastern Transport Company Private Limited

New Delhi-110019, the 16th August 2011

No. 560(5)/44222—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that the name of M/s. South Eastern Transport Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Excel Inservices Private Limited

New Delhi-110019, the 16th August 2011

No. 560(5)/102127—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Excel Inservices Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Sanjeev Apparels Private Limited

New Delhi-110019, the 17th August 2011

No. 560(5)/142673—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjeev Apparels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Swarnavo Builders & Developers Private Limited

New Delhi-110019, the 18th August 2011

No. 560(3)/MCA/RoC-Delhi/Sec 560/2011/00169—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Swarnavo Builders & Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

PREMLAL BHANJURAM MALIK  
Dy. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kolhapur Integrated Cane Processing Company  
Limited

New Delhi-110019, the 20th July 2011

No. 560(5)/169209—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kolhapur Integrated Cane Processing Company Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Kanpur Waste Management Company Private  
Limited

New Delhi-110019, the 20th July 2011

No. 560(5)/146455—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kanpur Waste Management Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Ahmedabad Waste Management Company Private  
Limited

New Delhi-110019, the 20th July 2011

No. 560(5)/163010—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ahmedabad Waste Management Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. ATV Propack Private Limited

New Delhi-110019, the 27th July 2011

No. 560(5)/119089—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. ATV Propack Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

ATMA SAH  
Asstt. Registrar of Companies  
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753014, the 19th August 2011

No. RoC/Sec. 560(5)/2011/1874—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	15-002824	M/s. Indradhanush Estates Private Limited
2.	15-006000	M/s. Matrubhumi Estates Private Limited
3.	15-006510	M/s. Greenfirm Developers Private Limited
4.	15-006687	M/s. View Television Private Limited
5.	15-007463	M/s. Rubys Exports Private Limited
6.	15-008232	M/s. Continental Metal and Minerals Resources (India) Private Limited
7.	15-008834	M/s. Shree Transportation Private Limited
8.	15-008993	M/s. Zoom Geomin Private Limited
9.	15-010786	M/s. Artha Tatwa Capital Limited
10.	15-010797	M/s. Ekamra Television Odissa Private Limited
11.	15-011027	M/s. DDM Tradings Private Limited
12.	15-011381	M/s. Maa Tarini Solutions Private Limited

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Utkal Bartta Publications Limited

Cuttack-753014, the 23rd August 2011

No. RoC/Sec. 560(5)/EES-2011/1895—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utkal Bartta Publications Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Orissa Club Limited

Cuttack-753014, the 24th August 2011

No. RoC/Sec. 560(5)/2011/1901—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Orissa Club Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved.

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Garg Afforestations Private Limited

Cuttack-753014, the 25th August 2011

No. RoC/FTE/Sec. 560(5)/2011/1942—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Garg Afforestations Private Limited has this day been struck off from the register and the said company is dissolved

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa